

भाता ओम बिरला जी, लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के कोटा नगर में प्रथम बार पधारने हेतु उनका तिलक, बैज व गुलदस्ते से स्वागत करते हुए एवं शाल ओढ़कर सम्मान करते हुए व ईश्वरीय सौगात देते हुए बी.के. उर्मिला बहन (कोटा संभाग प्रभारी) तथा अन्य बहने ।

अभिनन्दन पत्र

कोटा, 7 जुलाई 2019

प्रभु प्रिय भाता ओम बिरला जी ,

लोकसभा अध्यक्ष

ईश्वरीय स्नेह स्मृति

कोटा दिनांक 07/7/19 को लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में अध्यक्ष पद पाने हेतु कोटा नगर में प्रथम बार पधारने हेतु भाता ओम बिरला जी (लोकसभा अध्यक्ष) का तिलक, बैज व गुलदस्ते से स्वागत करते हुए एवं शाल ओढ़कर सम्मान करते हुए बी.के. उर्मिला बहन (कोटा संभाग प्रभारी) बी.के.लक्ष्मी बहन तथा अन्य बहने ।

हमें यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि लोकसभा में नवनिर्वाचित अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में आपकी योग्यतानुसार आपको अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है । यह सिर्फ इस कोटा नगरी ही नहीं अपितु पुरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है । इस अवसर पर मेरी ओर से एवं प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय; के सभी सदस्यों की ओर से आपको हार्दिक बधाई स्वीकार हो । परमपिता परमात्मा से मेरी यही शुभ कामना है कि इस क्षेत्र में आपके द्वारा अधिक से अधिक सेवा हो । आपकी ख्याति, प्रतिष्ठा, एवं लोकप्रियता में ऐसी ही अभिवृद्धि होती रहे, आप निरंतर यशस्वी जीवन के सोपान तय करते रहे । आपके जीवन में आने वाला हर क्षण सुख, शांति एवं आनंद से सुसंपन्न हो । आप अपनी जीवन में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहे । साथ ही उन्हें

राजनीतिक प्रभाग द्वारा संस्था के मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में राजनीतिज्ञों के लिए सम्मलेन का आयोजन किया गया है जिसका विषय “विकट समय के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण” है ।

अतः आपको मुख्य वक्ता के रूप में मुख्य वक्तव्य देने हेतु सस्नेह निमंत्रण है । अतः आप दिनांक 9 अगस्त से 11 अगस्त के बीच परमपिता परमात्माके इस बेहद घर में अवश्य ही पधारे, यही मेरी यही शुभ कामना है ।

ऐसी अनंत शुभ कामनाओं के साथ

ईश्वरीय सेवा में,
बी.के. उर्मिला बहन
कोटा संभाग प्रभारी
Email: kota@bkivv.org